

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
16.09.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 690 का उत्तर

कोच को कोविड केयर इकाइयों में बदला जाना

690. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:  
श्री बालूभाऊ ऊर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने यात्री रेलगाड़ी परिवहन को शुरू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, जिनका प्रचालन कोविड-19 के फैलने के कारण रोक दिया गया था;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यात्री रेलगाड़ी सेवाओं को लगभग कब तक पुनः बहाल किया जाएगा;
- (ग) कोविड-19 लॉकडाउन के पश्चात् पूरे देश में रेलगाड़ी सेवाओं को पुनः आरम्भ किए जाने के बाद लोगों के समक्ष आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपयुक्त कार्ययोजना बनाई गई है अथवा बनाई जाएगी;
- (घ) क्या सरकार ने लॉकडाउन संकट के दौरान अस्थायी कोविड-19 उपचार तथा देखभाल केंद्र के लिए काफ़ी संख्या में रेल कोच प्रदान किए हैं;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार रूपान्तरित रेल कोचों की रेलवे जोन-वार उपयोगिता स्थिति क्या है; और
- (च) इन रूपान्तरित कोचों को लगभग कब तक पुनः यात्री परिवहन के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

कोच को कोविड केयर इकाइयों में बदले जाने के संबंध में दिनांक 16.09.2020 को लोक सभा में डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन और श्री बालूभाऊ ऊर्फ सुरेश नारायण धानोरकर के अतारांकित प्रश्न संख्या 690 के भाग (क) से (च) तक के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): गृह मंत्रालय के दिनांक 01.05.2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकारों के अनुरोधों के आधार पर भारतीय रेल द्वारा दिनांक 01.05.2020 से श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चलाई गईं। यात्री सेवाओं को क्रमशः पुनः चलाने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा 12.05.2020 से 15 जोड़ी स्पेशल गाड़ियां और 01.06.2020 से 100 जोड़ी गाड़ियां परिचालित करके यात्री गाड़ी परिचालन फिर से शुरू किया गया। इसके अलावा, 12.09.2020 से 43 जोड़ी विशेष गाड़ियां चलाई गई हैं। इस समय, कोविड-19 महामारी प्रोटोकॉल के प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकारों की चिंता और सुझावों को ध्यान में रखते हुए सीमित ठहरावों के साथ केवल स्पेशल गाड़ियों को परिचालित किया जा रहा है।

(घ) से (च): जी हां, भारतीय रेल द्वारा लॉकडाउन संकट के दौरान 5231 अदद गैर-वातानुकूलित आईसीएफ सवारी डिब्बों को अस्थायी रूप से कोविड-19 आइसोलेशन इकाइयों के रूप में आइसोलेशन कोचों में परिवर्तित किया गया। इसकी जोन-वार स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	आइसोलेशन कोचों में परिवर्तित कोचों की संख्या
1	मध्य रेलवे	482
2	पूर्व रेलवे	380
3	पूर्व मध्य रेलवे	269
4	पूर्व तट रेलवे	261
5	उत्तर रेलवे	540
6	उत्तर मध्य रेलवे	130
7	पूर्वोत्तर रेलवे	217

8	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	315
9	उत्तर पश्चिम रेलवे	266
10	दक्षिण रेलवे	573
11	दक्षिण मध्य रेलवे	486
12	दक्षिण पूर्व रेलवे	338
13	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	111
14	दक्षिण पश्चिम रेलवे	320
15	पश्चिम रेलवे	410
16	पश्चिम मध्य रेलवे	133
कुल		5231

राज्य सरकारों की मांग के अनुसार दिनांक 12.09.2020 तक 813 सवारी डिब्बे मुहैया कराए गए हैं। आइसोलेशन केन्द्रों के रूप में इन सवारी डिब्बों की आवश्यकता पूरी होने पर इन सवारी डिब्बों को उनकी शेष कोडल आयु के आधार पर यात्री सेवाओं के लिए बहाल किया जाएगा।

\*\*\*\*\*